



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 22 दिसम्बर, 2020

पौष 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10

संख्या 451/आठ-10-20-43डी0ए0-76

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-460

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-7574/37-2-43डी0ए0/76, दिनांक 05 जनवरी, 1977 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती हैं :-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,-

(एक) तीसरे पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

नगर निगम गोरखपुर (नौसढ़ राजस्व ग्राम को अपवर्जित करके) की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र, किन्तु जिसमें किसी नौ सेना, थल सेना या वायु सेना के किसी प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ छावनी क्षेत्र और केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त, अधिग्रहीत या पट्टे पर ली गयी भूमि सम्मिलित नहीं है और निम्नलिखित क्षेत्र-

(क) पिपराइच नगर पंचायत, गोरखपुर।

(ख) पीपीगंज नगर पंचायत, गोरखपुर।

(ग) मुण्डेरा बाजार नगर पंचायत, गोरखपुर।

(दो) पूर्वोक्त अधिसूचना में उल्लिखित ग्रामों के अतिरिक्त, निम्नलिखित ग्राम जोड़ दिये जायेंगे, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील	जनपद
1	जंगल बिहुली	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
2	जंगल अगही	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
3	कोनी	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
4	जंगल झझवा	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
5	साहबगंज	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
6	बगही भारी	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
7	मथौली	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
8	हरपुर	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
9	बरहटा	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
10	कोल्लुहा	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
11	तिघरा	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
12	भईयाराम	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
13	जरहद	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
14	नैनसर	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
15	नरही	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
16	रामपुर	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
17	डडहाडीह	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
18	रसूलपुर चकिया	कैम्पियरगंज	गोरखपुर
19	शम्भू चक	सहजनवा	गोरखपुर
20	जंगल कौड़िया	गोरखपुर	गोरखपुर
21	गायघाट	गोरखपुर	गोरखपुर
22	चीँउटहा	गोरखपुर	गोरखपुर
23	ताल जमुआर	गोरखपुर	गोरखपुर
24	साखी उर्फ मेहोरिया	गोरखपुर	गोरखपुर
25	प्रेमपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
26	अजिजुल्लाह उर्फ चकिया	गोरखपुर	गोरखपुर
27	देवकली	गोरखपुर	गोरखपुर
28	सेमरडाडी	गोरखपुर	गोरखपुर
29	करहिया	गोरखपुर	गोरखपुर
30	शेरपुर चमरहा	गोरखपुर	गोरखपुर
31	नवापार	गोरखपुर	गोरखपुर
32	रामपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
33	बरईपार	गोरखपुर	गोरखपुर
34	मोहनपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
35	मरकरिया अथवा मरकड़िया	गोरखपुर	गोरखपुर
36	सुगंधगढ़	गोरखपुर	गोरखपुर
37	कौसरहा	गोरखपुर	गोरखपुर
38	करंजहवा	गोरखपुर	गोरखपुर
39	अवईपाकड़	गोरखपुर	गोरखपुर
40	खरिया	गोरखपुर	गोरखपुर
41	भाव	गोरखपुर	गोरखपुर
42	जगतबेला	गोरखपुर	गोरखपुर
43	बेला	गोरखपुर	गोरखपुर

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील	जनपद
44	बाघलाई	गोरखपुर	गोरखपुर
45	आराजी मोहम्मदपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
46	मोहम्मदपुर माफी	गोरखपुर	गोरखपुर
47	जमुआर	गोरखपुर	गोरखपुर
48	हरिहरपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
49	सोनबरसा	गोरखपुर	गोरखपुर
50	चक बिजौली	गोरखपुर	गोरखपुर
51	बिजौली	गोरखपुर	गोरखपुर
52	जंगल रामगढ़वा	गोरखपुर	गोरखपुर
53	खरकटवा	गोरखपुर	गोरखपुर
54	भिटनी	गोरखपुर	गोरखपुर
55	भन्डरिया	गोरखपुर	गोरखपुर
56	गौराखास	गोरखपुर	गोरखपुर
57	गोविन्दपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
58	मझगांवा	गोरखपुर	गोरखपुर
59	अहिरौली	गोरखपुर	गोरखपुर
60	टिकरिया	गोरखपुर	गोरखपुर
61	कोहरा अथवा कोहड़ा	गोरखपुर	गोरखपुर
62	उतरासोत	गोरखपुर	गोरखपुर
63	डोमिनगढ़ अहतमाली	गोरखपुर	गोरखपुर
64	देवीपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
65	परमेश्वरपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
66	रामपुर गोपालपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
67	ताल जहदा	गोरखपुर	गोरखपुर
68	एकला नम्बर 2	गोरखपुर	गोरखपुर
69	एकला नम्बर 1	गोरखपुर	गोरखपुर
70	मानीराम	गोरखपुर	गोरखपुर
71	रहमतनगर	गोरखपुर	गोरखपुर
72	बिश्नुपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
73	रामपुर चक	गोरखपुर	गोरखपुर
74	करमैनी	गोरखपुर	गोरखपुर
75	जंगल शिव सिंह	गोरखपुर	गोरखपुर
76	जौहर	गोरखपुर	गोरखपुर
77	बरौली	गोरखपुर	गोरखपुर
78	रामगढ़ उर्फ रजही	गोरखपुर	गोरखपुर
79	पिपरा चौरामन	गोरखपुर	गोरखपुर
80	फूलवरिया	गोरखपुर	गोरखपुर
81	करमहा खुर्द	गोरखपुर	गोरखपुर
82	रामपुर खुर्द	गोरखपुर	गोरखपुर
83	असरफपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
84	सल्लहपुर औरंगाबाद	गोरखपुर	गोरखपुर
85	भरवलिया उर्फ मुगला सराय	गोरखपुर	गोरखपुर
86	लगड़ी गुलरहिया	गोरखपुर	गोरखपुर
87	रसूलपुर गोनिया	गोरखपुर	गोरखपुर
88	हाफिज नगर	गोरखपुर	गोरखपुर
89	श्यामदेउरवां उर्फ लाल करना	गोरखपुर	गोरखपुर
90	सिहोरवां	गोरखपुर	गोरखपुर
91	सिरा उर्फ बड़गाडीह	गोरखपुर	गोरखपुर
92	ईस्लामपुर	गोरखपुर	गोरखपुर

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील	जनपद
93	रामपुर बुजुर्ग	गोरखपुर	गोरखपुर
94	मेहड़ा	गोरखपुर	गोरखपुर
95	जमुनिया	गोरखपुर	गोरखपुर
96	खीरीया	गोरखपुर	गोरखपुर
97	बिसमिलवां	गोरखपुर	गोरखपुर
98	आराजी चिलविलवां	गोरखपुर	गोरखपुर
99	भटहट	गोरखपुर	गोरखपुर
100	बजहां	गोरखपुर	गोरखपुर
101	मीरापुर	गोरखपुर	गोरखपुर
102	अतरौलियां	गोरखपुर	गोरखपुर
103	चकियां	गोरखपुर	गोरखपुर
104	अमवा	गोरखपुर	गोरखपुर
105	पोखर भिण्डा उर्फ चकड़ा	गोरखपुर	गोरखपुर
106	रामपुर थवईपार	गोरखपुर	गोरखपुर
107	लहुरा देउर	गोरखपुर	गोरखपुर
108	चक मईडा बीबी	गोरखपुर	गोरखपुर
109	नबीपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
110	सोनराईच उर्फ बड़गांव	गोरखपुर	गोरखपुर
111	जमुनिया	गोरखपुर	गोरखपुर
112	तुलसी देई	गोरखपुर	गोरखपुर
113	बनकटिया बुजुर्ग	गोरखपुर	गोरखपुर
114	ताज पिपरा	गोरखपुर	गोरखपुर
115	चितौना	गोरखपुर	गोरखपुर
116	रतनपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
117	तुलसी देउर	गोरखपुर	गोरखपुर
118	नेउरी	गोरखपुर	गोरखपुर
119	पतरा	गोरखपुर	गोरखपुर
120	बाड़डीह उर्फ रौजा	गोरखपुर	गोरखपुर
121	आराजी बनकट	गोरखपुर	गोरखपुर
122	खजवा	गोरखपुर	गोरखपुर
123	सोनई गोनरहा	गोरखपुर	गोरखपुर
124	महराजी	गोरखपुर	गोरखपुर
125	सोन्दा	गोरखपुर	गोरखपुर
126	मुररी बुजुर्ग	गोरखपुर	गोरखपुर
127	रच्चापार	गोरखपुर	गोरखपुर
128	ईमिलिया उर्फ बिजहरा	गोरखपुर	गोरखपुर
129	खड़राइच खुर्द	गोरखपुर	गोरखपुर
130	खड़राइच बुजुर्ग	गोरखपुर	गोरखपुर
131	रमवापुर	गोरखपुर	गोरखपुर
132	मठिया	गोरखपुर	गोरखपुर
133	मुरारी खुर्द	गोरखपुर	गोरखपुर
134	महोवा उर्फ कटिया	गोरखपुर	गोरखपुर
135	तकिया मदनीपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
136	चंगही	गोरखपुर	गोरखपुर
137	सिधावल	गोरखपुर	गोरखपुर
138	रिठीया	गोरखपुर	गोरखपुर
139	हरखापुर	गोरखपुर	गोरखपुर
140	मुरेरी गरहवा	गोरखपुर	गोरखपुर
141	पिपरा मुगलान	गोरखपुर	गोरखपुर

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील	जनपद
142	कोनी	गोरखपुर	गोरखपुर
143	बसडीला रोसर	गोरखपुर	गोरखपुर
144	कैथवलिया	गोरखपुर	गोरखपुर
145	जयपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
146	रमडीहा	गोरखपुर	गोरखपुर
147	पचौरा	गोरखपुर	गोरखपुर
148	जोतमामापार	गोरखपुर	गोरखपुर
149	शिवाघाट	गोरखपुर	गोरखपुर
150	जोत बिजैलिया	गोरखपुर	गोरखपुर
151	उचगांव	गोरखपुर	गोरखपुर
152	कथईया	गोरखपुर	गोरखपुर
153	भटेहरी	गोरखपुर	गोरखपुर
154	बहरिया	गोरखपुर	गोरखपुर
155	जोत सोझावार	गोरखपुर	गोरखपुर
156	जोत डेहरा	गोरखपुर	गोरखपुर
157	जोतढाढेडीह	गोरखपुर	गोरखपुर
158	सेवई	गोरखपुर	गोरखपुर
159	जंगल बुधिराम सिंह	गोरखपुर	गोरखपुर
160	तेलिया डीह	गोरखपुर	गोरखपुर
161	शिव चक	गोरखपुर	गोरखपुर
162	आराजी बंशी जयसवाल	गोरखपुर	गोरखपुर
163	टोटा उर्फ भौवापार	गोरखपुर	गोरखपुर
164	केवट कक्षावल	गोरखपुर	गोरखपुर
165	ताल नदौर	गोरखपुर	गोरखपुर
166	जंगल अखलास कुंवर	गोरखपुर	गोरखपुर
167	जंगल मोलहू कुंवर	गोरखपुर	गोरखपुर
168	केवट कक्षारानी	गोरखपुर	गोरखपुर
169	जंगल रानी सोहास कुवरी	गोरखपुर	गोरखपुर
170	जंगल दरगहन सिंह	गोरखपुर	गोरखपुर
171	जंगल विश्रामपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
172	अजवनियां	गोरखपुर	गोरखपुर
173	बेलघाट	गोरखपुर	गोरखपुर
174	लहेसड़ी अहतमाली	गोरखपुर	गोरखपुर
175	जंगल अयोध्या प्रसाद	गोरखपुर	गोरखपुर
176	कोनी	गोरखपुर	गोरखपुर
177	तालदोहर	गोरखपुर	गोरखपुर
178	हक्काबाद	गोरखपुर	गोरखपुर
179	बिसुनपुर बुजुर्ग	गोरखपुर	गोरखपुर
180	ताल कन्दला	गोरखपुर	गोरखपुर
181	महीमाठ	गोरखपुर	गोरखपुर
182	चिउटीजाम	गोरखपुर	गोरखपुर
183	डोमनी	गोरखपुर	गोरखपुर
184	रायगंज	गोरखपुर	गोरखपुर
185	जंगल राम लखन	गोरखपुर	गोरखपुर
186	रामपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
187	मोतीराम अड्डा	गोरखपुर	गोरखपुर
188	शिवपुर	गोरखपुर	गोरखपुर
189	गहिरा	गोरखपुर	गोरखपुर
190	रुद्रपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील	जनपद
191	कुसमही	चौरी चौरा	गोरखपुर
192	वहरामपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर
193	रामनगर कड़जहां	चौरी चौरा	गोरखपुर
194	माडापार	चौरी चौरा	गोरखपुर
195	आराजी मतौनी	चौरी चौरा	गोरखपुर
196	आराजी बसडिला	चौरी चौरा	गोरखपुर
197	भैसहा	चौरी चौरा	गोरखपुर
198	जगदीशपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर
199	मठिया बुजुर्ग	चौरी चौरा	गोरखपुर
200	सिसवां उर्फ चनकपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर
201	बेलवा खुर्द	चौरी चौरा	गोरखपुर
202	सोनबरसा खुर्द	चौरी चौरा	गोरखपुर
203	इब्रहिमपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर
204	मलमलिया	चौरी चौरा	गोरखपुर
205	भटगांवा	चौरी चौरा	गोरखपुर
206	बैकून्टपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर
207	बिशुनपुर खुर्द	चौरी चौरा	गोरखपुर
208	छपरा मनसूर	चौरी चौरा	गोरखपुर
209	डुमरी खास	चौरी चौरा	गोरखपुर
210	रामपुर बुजुर्ग	चौरी चौरा	गोरखपुर
211	नरायनपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर
212	तिहा	चौरी चौरा	गोरखपुर
213	सथारी	चौरी चौरा	गोरखपुर
214	भगवानपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर
215	फूलवरिया	चौरी चौरा	गोरखपुर
216	अवधपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर
217	करमहा	चौरी चौरा	गोरखपुर
218	देव कली	चौरी चौरा	गोरखपुर
219	देवीपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर
220	देवी तरकुलहा	चौरी चौरा	गोरखपुर
221	केवला द्वार	चौरी चौरा	गोरखपुर
222	बरही	चौरी चौरा	गोरखपुर
223	डुमरी खुर्द	चौरी चौरा	गोरखपुर
224	शत्रुघनपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर
225	रच्चोपुर	चौरी चौरा	गोरखपुर
226	चक देईया	चौरी चौरा	गोरखपुर
227	बाल खुर्द	चौरी चौरा	गोरखपुर
228	भोपा बाजार	चौरी चौरा	गोरखपुर
229	महादेवा जंगल	चौरी चौरा	गोरखपुर
230	महादेवा अदाई	चौरी चौरा	गोरखपुर
231	चौरा	चौरी चौरा	गोरखपुर
232	बाल बुजुर्ग	चौरी चौरा	गोरखपुर
233	चौरी	चौरी चौरा	गोरखपुर

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of the India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 451/VIII-10-2020-43D.A./76, dated December 22, 2020:

No. 451/VIII-10-2020-43D.A./76

Dated Lucknow, December 22, 2020

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no.11 of 1973) as *re-enacted* and amended by the Uttar Pradesh President's (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in the Government notification no. 7574/37-2-43D.A./76, dated January 05, 1977 with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

AMENDMENT

IN the aforesaid notification,—

(i) for the third paragraph, the following paragraph shall be *substituted*, namely :—

Area falling within the boundaries of the Municipal Corporation, Gorakhpur (Excluding Nausadh Revenue Village), but excluding, Cantonment area and land owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the purpose of any navy , army or air force authority and the following areas of :—

- (a) Pipraich Nagar Panchayat, Gorakhpur.
- (b) Pipiganj Nagar Panchayat, Gorakhpur.
- (c) Mundera Bazar Nagar Panchayat, Gorakhpur.

(ii) in addition to the villages mentioned in the aforesaid notification, the following villages shall be added, namely :—

S.No.	Village Name (in English)	Tehsil	District
1	Jangal Bihuli	Campierganj	Gorakhpur
2	Jangal agahi	Campierganj	Gorakhpur
3	Kuin	Campierganj	Gorakhpur
4	Jangal Jhahjwa	Campierganj	Gorakhpur
5	Sahbganj	Campierganj	Gorakhpur
6	Bagahi Bhari	Campierganj	Gorakhpur
7	Mathauli	Campierganj	Gorakhpur
8	Harpur	Campierganj	Gorakhpur
9	Barhatha	Campierganj	Gorakhpur
10	Kolhua	Campierganj	Gorakhpur
11	Tighara	Campierganj	Gorakhpur
12	Bhaiyaram	Campierganj	Gorakhpur
13	Jarhad	Campierganj	Gorakhpur
14	Nainsar	Campierganj	Gorakhpur
15	Narhi	Campierganj	Gorakhpur
16	Rampur	Campierganj	Gorakhpur
17	Dhadhadih	Campierganj	Gorakhpur
18	Rasoolpur Chakia	Campierganj	Gorakhpur
19	Shambhu Chak	Sahjanwa	Gorakhpur
20	Jangal Kauria	Gorakhpur	Gorakhpur
21	Gay Ghat	Gorakhpur	Gorakhpur
22	Chiutaha	Gorakhpur	Gorakhpur
23	Tal Jamuar	Gorakhpur	Gorakhpur
24	Sakhi <i>Urf</i> Mehoria	Gorakhpur	Gorakhpur
25	Prempur	Gorakhpur	Gorakhpur
26	Azizullah <i>Urf</i> Chakia	Gorakhpur	Gorakhpur
27	Deokali	Gorakhpur	Gorakhpur
28	Semardari	Gorakhpur	Gorakhpur
29	Karhiya	Gorakhpur	Gorakhpur

S.No.	Village Name (in English)	Tehsil	District
30	Sherpur Chamrah	Gorakhpur	Gorakhpur
31	Nawapar	Gorakhpur	Gorakhpur
32	Rampur	Gorakhpur	Gorakhpur
33	Baraipar	Gorakhpur	Gorakhpur
34	Mohanpur	Gorakhpur	Gorakhpur
35	Markariya	Gorakhpur	Gorakhpur
36	Sugandh Garh	Gorakhpur	Gorakhpur
37	Kusahra	Gorakhpur	Gorakhpur
38	Karnjahwa	Gorakhpur	Gorakhpur
39	Awaiepaker	Gorakhpur	Gorakhpur
40	Kharia	Gorakhpur	Gorakhpur
41	Bhaw	Gorakhpur	Gorakhpur
42	Jagatbela	Gorakhpur	Gorakhpur
43	Bela	Gorakhpur	Gorakhpur
44	Baghari	Gorakhpur	Gorakhpur
45	Arazi Mohammadpur	Gorakhpur	Gorakhpur
46	Mohammadpur Mafi	Gorakhpur	Gorakhpur
47	Jamuar	Gorakhpur	Gorakhpur
48	Hariharpur	Gorakhpur	Gorakhpur
49	Sonbarsa	Gorakhpur	Gorakhpur
50	Chak Bijauli	Gorakhpur	Gorakhpur
51	Bijauli	Gorakhpur	Gorakhpur
52	Jangal Ramgarhwa	Gorakhpur	Gorakhpur
53	Kharkatwa	Gorakhpur	Gorakhpur
54	Bhitani	Gorakhpur	Gorakhpur
55	Bhandari	Gorakhpur	Gorakhpur
56	Gaura Khas	Gorakhpur	Gorakhpur
57	Govindpur	Gorakhpur	Gorakhpur
58	Majhgaonwa	Gorakhpur	Gorakhpur
59	Ahirauli	Gorakhpur	Gorakhpur
60	Tikaria	Gorakhpur	Gorakhpur
61	Kohara	Gorakhpur	Gorakhpur
62	Utrasot	Gorakhpur	Gorakhpur
63	Domin Garh Ah.	Gorakhpur	Gorakhpur
64	Devipur	Gorakhpur	Gorakhpur
65	Parmeshwarpur	Gorakhpur	Gorakhpur
66	Rampur Gopalpur	Gorakhpur	Gorakhpur
67	Taljahda	Gorakhpur	Gorakhpur
68	Ekala no.2	Gorakhpur	Gorakhpur
69	Ekala no.1	Gorakhpur	Gorakhpur
70	Maniram	Gorakhpur	Gorakhpur
71	Rahmat Nagar	Gorakhpur	Gorakhpur
72	Bisunpur	Gorakhpur	Gorakhpur
73	Rampur Chak	Gorakhpur	Gorakhpur
74	Karmaini	Gorakhpur	Gorakhpur
75	Jangal Shiv Singh	Gorakhpur	Gorakhpur
76	Jaurhar	Gorakhpur	Gorakhpur
77	Barauli	Gorakhpur	Gorakhpur
78	Ramgarh <i>Urf</i> Rajahi	Gorakhpur	Gorakhpur
79	Pipra Churaman	Gorakhpur	Gorakhpur
80	Phulwaria	Gorakhpur	Gorakhpur
81	Karmaha khurd	Gorakhpur	Gorakhpur
82	Rampur Khurd	Gorakhpur	Gorakhpur

S.No.	Village Name (in English)	Tehsil	District
83	Asarhpur	Gorakhpur	Gorakhpur
84	Salhpur Aurangabad	Gorakhpur	Gorakhpur
85	Bharwalia <i>Urf</i> Mogala Sarai	Gorakhpur	Gorakhpur
86	Langri Golaria	Gorakhpur	Gorakhpur
87	Rasoolpur Gonja	Gorakhpur	Gorakhpur
88	Haphij Nagar	Gorakhpur	Gorakhpur
89	Shyam Durwa <i>Urf</i> Lal Karana	Gorakhpur	Gorakhpur
90	Siharwa	Gorakhpur	Gorakhpur
91	Sira <i>Urf</i> Bargadhee	Gorakhpur	Gorakhpur
92	Isalampur	Gorakhpur	Gorakhpur
93	Rampur Buzurg	Gorakhpur	Gorakhpur
94	Mehadia	Gorakhpur	Gorakhpur
95	Jamunia	Gorakhpur	Gorakhpur
96	Khiria	Gorakhpur	Gorakhpur
97	Bismilahwa	Gorakhpur	Gorakhpur
98	Arazi Chilbilwa	Gorakhpur	Gorakhpur
99	Bhatahat	Gorakhpur	Gorakhpur
100	Bajaha	Gorakhpur	Gorakhpur
101	Mirapur	Gorakhpur	Gorakhpur
102	Ataraulia	Gorakhpur	Gorakhpur
103	Chakia	Gorakhpur	Gorakhpur
104	Amwa	Gorakhpur	Gorakhpur
105	Pokharbhinda <i>Urf</i> Chakdah	Gorakhpur	Gorakhpur
106	Rampur Thawaipar	Gorakhpur	Gorakhpur
107	Lahura Deur	Gorakhpur	Gorakhpur
108	Chak Maecda Bibi	Gorakhpur	Gorakhpur
109	Nabipur	Gorakhpur	Gorakhpur
110	Sonraiech <i>Urf</i> Bragaon	Gorakhpur	Gorakhpur
111	Jamunia	Gorakhpur	Gorakhpur
112	Tulsidei	Gorakhpur	Gorakhpur
113	Bankatia Buzurg	Gorakhpur	Gorakhpur
114	Taj Pipra	Gorakhpur	Gorakhpur
115	Chhitauna	Gorakhpur	Gorakhpur
116	Ratnpur	Gorakhpur	Gorakhpur
117	Tulasi Deur	Gorakhpur	Gorakhpur
118	Neuri	Gorakhpur	Gorakhpur
119	Patara	Gorakhpur	Gorakhpur
120	Bardeeha <i>Urf</i> Rauza	Gorakhpur	Gorakhpur
121	Arazi Bankat	Gorakhpur	Gorakhpur
122	Khajhawa	Gorakhpur	Gorakhpur
123	Sonwy Gonarha	Gorakhpur	Gorakhpur
124	Mahrazi	Gorakhpur	Gorakhpur
125	Sanda	Gorakhpur	Gorakhpur
126	Mureri Buzurg	Gorakhpur	Gorakhpur
127	Rachhawapar	Gorakhpur	Gorakhpur
128	Emilia <i>Urf</i> Bijahra	Gorakhpur	Gorakhpur
129	Kharaiech Khurd	Gorakhpur	Gorakhpur
130	Kharaiech Buzurg	Gorakhpur	Gorakhpur
131	Ramwapur	Gorakhpur	Gorakhpur
132	Mathia	Gorakhpur	Gorakhpur
133	Muriari Khurd	Gorakhpur	Gorakhpur
134	Mahowa <i>Urf</i> Katya	Gorakhpur	Gorakhpur
135	Takia Medanipur	Gorakhpur	Gorakhpur

S.No.	Village Name (in English)	Tehsil	District
136	Changahi	Gorakhpur	Gorakhpur
137	Sidhawal	Gorakhpur	Gorakhpur
138	Rithia	Gorakhpur	Gorakhpur
139	Harkhapur	Gorakhpur	Gorakhpur
140	Mureri Garhwa	Gorakhpur	Gorakhpur
141	Pipara Muglan	Gorakhpur	Gorakhpur
142	Koni	Gorakhpur	Gorakhpur
143	Basdeela Rausar	Gorakhpur	Gorakhpur
144	Kaithawalia	Gorakhpur	Gorakhpur
145	Jaipur	Gorakhpur	Gorakhpur
146	Ramdeeha	Gorakhpur	Gorakhpur
147	Pichhaura	Gorakhpur	Gorakhpur
148	Jotmampur	Gorakhpur	Gorakhpur
149	Shivghat	Gorakhpur	Gorakhpur
150	Jot Bijulia	Gorakhpur	Gorakhpur
151	Unch Gaon	Gorakhpur	Gorakhpur
152	Kashthaiya	Gorakhpur	Gorakhpur
153	Bhatehari	Gorakhpur	Gorakhpur
154	Baywaharia	Gorakhpur	Gorakhpur
155	Jot Sojavar	Gorakhpur	Gorakhpur
156	Jot Dehra	Gorakhpur	Gorakhpur
157	Jotdaded Dih	Gorakhpur	Gorakhpur
158	Sewaie	Gorakhpur	Gorakhpur
159	Janglbudhiram Singh	Gorakhpur	Gorakhpur
160	Telia Deeh	Gorakhpur	Gorakhpur
161	Shiv Chak	Gorakhpur	Gorakhpur
162	Arazibanshi Jaiswal	Gorakhpur	Gorakhpur
163	Totaaha <i>Urf</i> Bhauwapar	Gorakhpur	Gorakhpur
164	Keot Kachha Aual	Gorakhpur	Gorakhpur
165	Tal Nadaur	Gorakhpur	Gorakhpur
166	Jangl Akhalas Kunar	Gorakhpur	Gorakhpur
167	Jangl Molahoo Kunwar	Gorakhpur	Gorakhpur
168	Keot Kachha Sani	Gorakhpur	Gorakhpur
169	Jangl Ranee Sohas Kunwari	Gorakhpur	Gorakhpur
170	Jangl Deerghan Singh	Gorakhpur	Gorakhpur
171	Jangl Bishrampur	Gorakhpur	Gorakhpur
172	Ajawania	Gorakhpur	Gorakhpur
173	Belghat	Gorakhpur	Gorakhpur
174	Lahsari Ah.	Gorakhpur	Gorakhpur
175	Jangal Ayodhaya Parsad	Gorakhpur	Gorakhpur
176	Konee	Gorakhpur	Gorakhpur
177	Taldohr	Gorakhpur	Gorakhpur
178	Hakkabad	Gorakhpur	Gorakhpur
179	Bisunpur Buzurg	Gorakhpur	Gorakhpur
180	Tal Kandala	Gorakhpur	Gorakhpur
181	Maheemath	Gorakhpur	Gorakhpur
182	Chhinuteejam	Gorakhpur	Gorakhpur
183	Domanee	Gorakhpur	Gorakhpur
184	Raiganj	Gorakhpur	Gorakhpur
185	Jangl Ram Lakhan	Gorakhpur	Gorakhpur
186	Rampur	Gorakhpur	Gorakhpur
187	Moteeram Adda	Gorakhpur	Gorakhpur
188	Shivpur	Gorakhpur	Gorakhpur

S.No.	Village Name (in English)	Tehsil	District
189	Gahira	Gorakhpur	Gorakhpur
190	Rudrapur	Chauri Chaura	Gorakhpur
191	Kusumhi	Chauri Chaura	Gorakhpur
192	Vahrampur	Chauri Chaura	Gorakhpur
193	Ramnagar Karjaha	Chauri Chaura	Gorakhpur
194	Madapar	Chauri Chaura	Gorakhpur
195	Araji Mataoni	Chauri Chaura	Gorakhpur
196	Araji Basdila	Chauri Chaura	Gorakhpur
197	Bhaisaha	Chauri Chaura	Gorakhpur
198	Jagadishpur	Chauri Chaura	Gorakhpur
199	Mathiya Bujurg	Chauri Chaura	Gorakhpur
200	Sisawa <i>Urf</i> Chankapur	Chauri Chaura	Gorakhpur
201	Belwa Khurd	Chauri Chaura	Gorakhpur
202	Sonbarsa Khurd	Chauri Chaura	Gorakhpur
203	Ebrahimpur	Chauri Chaura	Gorakhpur
204	Malmaliya	Chauri Chaura	Gorakhpur
205	Bhat Ganwa	Chauri Chaura	Gorakhpur
206	Baikunth Pur	Chauri Chaura	Gorakhpur
207	Bishunpur Khurd	Chauri Chaura	Gorakhpur
208	Chhapra Mansoor	Chauri Chaura	Gorakhpur
209	Dumari Khas	Chauri Chaura	Gorakhpur
210	Rampur Bujurg	Chauri Chaura	Gorakhpur
211	Narain Pur	Chauri Chaura	Gorakhpur
212	Tiha	Chauri Chaura	Gorakhpur
213	Sathari	Chauri Chaura	Gorakhpur
214	Bhagwan Pur	Chauri Chaura	Gorakhpur
215	Phulawaria	Chauri Chaura	Gorakhpur
216	Awadha Pur	Chauri Chaura	Gorakhpur
217	Karmha	Chauri Chaura	Gorakhpur
218	Dev Kali	Chauri Chaura	Gorakhpur
219	Devi Pur	Chauri Chaura	Gorakhpur
220	Devi Tarkulha	Chauri Chaura	Gorakhpur
221	Kevla Dawar	Chauri Chaura	Gorakhpur
222	Barhi	Chauri Chaura	Gorakhpur
223	Dumari Khurd	Chauri Chaura	Gorakhpur
224	Shatrudhan Pur	Chauri Chaura	Gorakhpur
225	Rachho Pur	Chauri Chaura	Gorakhpur
226	Chak Deia	Chauri Chaura	Gorakhpur
227	Bal Khurd	Chauri Chaura	Gorakhpur
228	Bhopa Bazar	Chauri Chaura	Gorakhpur
229	Mahdewa Jungle	Chauri Chaura	Gorakhpur
230	Mahdewa Adai	Chauri Chaura	Gorakhpur
231	Chaura	Chauri Chaura	Gorakhpur
232	Bal Bujurg	Chauri Chaura	Gorakhpur
233	Chaori	Chauri Chaura	Gorakhpur

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 548 राजपत्र-2020 (1132)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 सा० आवास एवं शहरी नियोजन-2020(1133)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर)।